



भाकृअनुप-भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान

नबीबाग, बैरसिया रोड, भोपाल - 462038

ICAR-Indian Institute of Soil Science

Nabibagh, Berasia Road, Bhopal - 462 038 (M.P.)

Tel. No.(0755)2730970/2734221 (Ext. No. 233 & 256) Fax. No. (0755) 2733310



माह

Month

परिवहन शुल्क के इम्प्रेस्ट से प्रतिपूर्ति/अग्रिम हेतु मांग पत्र

Requisition for Advance/Reimbursement from imprest for conveyance charges.

1. नाम व पदनाम :
Name and Designation :
2. अनुभाग :
Section :
3. स्थान जहां जाना है व उद्देश्य :
Place(s) and purpose of visit :

क्रं. Sl.No.	दिनांक Date	स्थान जिसका दौरा किया गया Places visited	दावे की राशि Amount claimed (Rs.)	यात्रा का उद्देश्य Purpose of visit

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त कार्य एवं यात्रा हेतु संस्थान का वाहन उपलब्ध नहीं है/था। उक्त कार्य व यात्रा लोकहित में की जानी है।

Certified that the vehicle is /was not available for the above work and journey is /was required to be performed on public interest.

अधिकारी/कर्मचारी का हस्ताक्षर
Signature of the official

अनुशंसित/अगनुशंसित
Recommended / Not Recommended

प्रभारी प्रयोगशाला/अनुभाग
I/c Laboratory / Section

स्वीकृत रू.
Sanctioned Rs.

स्वीकृतिदाता प्राधिकारी के हस्ताक्षर.
Signature of the Sanctioning Authority

समायोजन/प्रतिपूर्ति का विवरण/ Adjustment / Reimbursement Particulars

1. रसीद (यदि हो तो) / Money receipt, if any obtained:

2. प्रमाणित किया जाता है / Certified that :-

अ) रूपये की राशि मेरे द्वारा प्राप्त की गई/भुगतान की गई।

a) The above amount of Rs. Was received by me and / or paid by me.

ब) यात्रा जनहित में की गई थी।

b) The journey performed was on public interest.

राशि प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर / Signature of the Applicant received money

Signature of the I/c Lab/Section

प्रयोगशाला/अनुभाग प्रभारी के हस्ताक्षर

प्रयोगशाला/अनुभाग के रजिस्टर संख्या के पृष्ठ संख एवं क्रमांक
संख्यापर स्टॉक एन्ट्री की गई है। / Stock entry has been made on the register
No. of Lab / Section At page No.
..... Sl. No.

स्टॉक एन्ट्री करने वाले के हस्ताक्षर / Signature of the person making stock entry

प्रयोगशाला/अनुभाग प्रभारी के हस्ताक्षर / Signature of the I/c Lab/Section